

iReport.ie आयरलैंड में नस्लवाद की रिपोर्ट

2021 सारांश

सन् 2021 में जनता से 404 सूचनाएं (रिपोर्ट) प्राप्त हुईं।

- इनमें से 154 सूचनाएं (रिपोर्ट) नस्लवादी आपराधिक अपराधों के बारे में थीं जिसमें हमला, धमकी, उत्पीड़न और आपराधिक क्षति करना शामिल था।
- 90 सूचनाएं (रिपोर्ट) गैर-कानूनी नस्लवादी भेदभाव के बारे में थीं।
- 113 सूचनाएं (रिपोर्ट) मीडिया या ऑनलाइन, या सार्वजनिक हस्तियों के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करने के बारे में थीं।
- 14 रिपोर्ट दीवारों पर नस्लवादी चित्रण करने की थीं।

सन् 2021 में पुलिस में केवल एक-चौथाई अपराध ही दर्ज किए गए थे जो सन् 2020 की तुलना में काफी कम हैं।

सन् 2021 में भी हमलों की संख्या उतनी ही अधिक रही जितनी पिछले वर्षों में थी। ज्यादातर हमले अजनबियों के द्वारा किए गए थे।

सप्ताह, महीनों एवं वर्ष के दौरान बार-बार उत्पीड़न किए जाने की 39 सूचनाएं मिलीं। यह आमतौर पर आसपास/पड़ोस में किए जाते थे जहां कोई रहता था लेकिन ऐसी सूचनाएं कार्यस्थल एवं स्कूल से भी थीं।

सोलह सूचनाएं (रिपोर्ट) काम या काम के लिए आवेदन के दौरान नस्लवाद होने के बारे में थीं। जाति के आधार पर रोजगार में भेदभाव करना गैर-कानूनी है।

छत्तीस सूचनाएं (रिपोर्ट) उन लोगों के बारे में थीं जिन्हें सार्वजनिक परिवहन, दुकानों, होटलों, जिम एवं अन्य सेवाओं लेने से मना कर दिया गया था। आवास में भेदभाव किए जाने की तीन सूचनाएं मिलीं। जाति के आधार पर आवास सहित वस्तुओं का उपभोग या सेवाओं तक पहुंच से मना करना गैर-कानूनी है।

पुलिस, शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं स्थानीय सरकार सहित सार्वजनिक सेवा संगठनों के कर्मचारी रिपोर्ट किए गए नस्लवादी भेदभाव के 30% मामलों हेतु जिम्मेदार थे। सार्वजनिक सेवा संगठनों का यह कर्तव्य है कि वे मानवाधिकार और समानता आयोग अधिनियम 2014 (पब्लिक सेक्टर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स ड्यूटी 2014) का पालन करें और नस्ल के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।

55% घटनाओं एवं 75% अपराधों में जातिवादी भाषा सुनी गई।

रिपोर्ट किए गए 88% लोगों पर नस्लवादी घटनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। 15% सूचनाओं (रिपोर्ट) में शारीरिक चोटें आई थीं।

Full report available at: www.inar.ie

<https://inar.ie/2021-reports-of-racism/>

Report racism at www.iReport.ie